

प्ररूप-1

भर्ती अभिकर्ता के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप

(निधम 7 देखिए)

1. आवेदक का नाम ।

2. प्रास्थिति (कम्पनी/भागीदारी फर्म/एकमात्र स्वत्वधारी) (किसी कम्पनी की दशा में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और अनुच्छेद ज्ञापन की प्रति और किसी फर्म की दशा में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और भागीदारी विलेख की प्रति इस आवेदन के साथ संलग्न की जाएगी) ।

3. स्थापन की स्थापना की तारीख ।

4. निदेशक, भागीदार या स्वत्वधारी का जो आवेदक फर्म या स्वत्वधारी समुत्थान की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत है, नाम, पदाभिधान और पता (नमूना हस्ताक्षर संलग्न किए जाएंगे) ।

5. बैंककार का नाम और पता ।

6. वित्तीय प्रास्थिति :

- (1) अनुमोदित मूल्यांकक द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित आस्तियों का मूल्य ।
- (2) बैंक के द्वारा किसी प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित बैंक निक्षेप,
- (3) विनिधान
- (4) कुल हैसियत
- (5) स्थायी आधकर संख्या ।

(पूर्व वर्ष की आधकर रकम के प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न करें)

7. पिछले पांच वर्षों के दौरान कारबार ।

8. विदेश में नियोजन के लिए जन् शक्ति की भर्ती का अनुभव, यदि कोई हो, यदि ऐसा है तो :

- (क) क्या आवेदक भर्ती अभिकर्ता के रूप में पहले रजिस्ट्रीकृत था और यदि हां, तो विवरण दें ।
- (ख) क्या कोई निदेशक/भागीदार/स्वत्वधारी पहले किसी भर्ती अभिकर्ता के साथ सहयुक्त किया गया था और यदि हां, तो विवरण दें ।

9. क्या पहले से ही भर्ती का कारबार कर रहा है, पिछले पांच वर्षों के दौरान वर्षवार, देशवार, और प्रवर्गवार, विदेश में नियोजित कर्मकारों की संख्या ।

10. क्या भर्ती किए गए कर्मकारों की वाबत आवेदक के विरुद्ध कोई शिकायत है यदि हां, तो उनका विवरण दें ।

11. क्या आवेदक के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई दांडक या सिविल मामला लंबित है, यदि हां, तो उसका विवरण दें ।

12. क्या किसी निदेशक/भागीदार/स्वत्वधारी को कभी दोषमिद्ध किया गया है, यदि हां, तो उसका विवरण दें ।

13. क्या उत्प्रासी अधिनियम, 1983 के अधीन जारी किया गया कोई प्रमाणपत्र रद्द किया गया है, यदि हां, तो उसके कारण दें ।

14. कारबार का संचालन करने के लिए कार्यालय परिसरों का पता ।

15. क्या कार्यालय परिसर स्वामित्व में हैं या भाड़े पर या पट्टे पर लिए गए हैं, यदि कार्यालय भाड़े/पट्टे पर ली गई परिसरों में है, तो स्वामी का नाम और पता ।

16. क्या कारबार परिसरें समुचित हैं और वे आम जनता के लिए आसानी से सुलभ हो सकती हैं ।

17. आवेदक के पास कारबार के संचालन के लिए सुविधाओं का विवरण दें ।

18. उन देशों के नाम जहां आवेदक भर्ती कर्मकारों को नियोजित करने के लिए अपने प्रयास करने को प्रस्तावना करता है । वह उन देशों से किस प्रकार संपर्क रखता है ।

19. भर्ती किए जाने के लिए प्रस्तावित कर्मकारों की संख्या और जमा की जाने वाली प्रतिभूति का प्ररूप ।

20. वह कालावधि जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है ।

वचनबंध

मैं यह वचनबंध करता हूं कि उपरोक्त दी गई किसी सूचना के किसी भी बाबत मिथ्या या गलत पाये जाने की दशा में प्रमाणपत्र रद्द किया जा सकता है ।

तारीख

अपीलार्थी

प्ररूप-2

शपथ-पत्र

(निधम 7 देखिए)

मैं, पुत्र श्री आयु निवासी इसके द्वारा सत्य निष्ठापूर्वक निम्नलिखित रूप में यह प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं :—

1. कि मैं कम्पनी/फर्म/रूप के मूल्य की निधत आस्तियों का स्वामी हूँ/हैं ।

2. यह कि मैं कम्पनी/फर्म रूप के बैंक निक्षेप धारण करता हूँ/हैं ।

3. यह कि मैं कम्पनी/फर्म ने निम्नलिखित अन्य विनिधान किए हैं ।

(क)

(ख)

- (ग)
(घ)
4. यह कि मैं उस कम्पनी/फर्म के निम्नलिखित दायित्व
है :
(ङ)
(च)
(ग)

सत्यापन :

मैं सत्य निष्ठापूर्वक यह प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त पैरा 1 से 4 की अन्तर्वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है और किसी भी धान को नहीं छिपाया गया है।

.....को सत्यापित किया गया।

अभिसाधी

महानगर मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अति-
प्रमाणित नाम, हस्ताक्षर और मोहर

प्ररूप-4

कम्पनी का नाम.....
रजिस्ट्रीकरण सं०
मास की विवरणी

उत्प्रवासी महा संरक्षक के कार्यालय में भर्ती अभिकर्ता द्वारा प्रत्येक मास के
10वें दिन तक मासिक विवरणी का प्रस्तुत किया जाना

[[नियम 10(1) देखिए]]

मांग के विवरण	विदेश में नियोजित व्यक्तियों की संख्या	उत्प्रवासियों से बमूल किया गया प्रभार	संविदा कालावधि के पूरी होने के पूर्व नियोजक द्वारा संप्रत्यावर्तित व्यक्तियों की संख्या	बीजा की सं० प्राप्ति प्रयुक्त किया गया	पूर्व संदत्त टिकट सलाह प्राप्ति प्रयुक्त किया गया	नियोजकों से प्राप्त फीस (विदेशी मुद्रा में)
	1 2 3					
	प्रवेश देश मजदूरी					
1	2	3	4	5	6	7

हस्ताक्षर

कम्पनी की मोहर

तारीख

प्रमाणपत्र

[नियम 10 (2) देखिए]

विदेशी नियोजकों के साथ भारतीय कर्मकारों के नियोजन के लिए भर्ती का कारबार प्रारंभ करने या चलाने के लिए उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 10 के अधीन प्रमाणपत्र की मंजूरी के लिएतारीख के आवेदन के संबंध में मैंको उक्त प्रमाणपत्र दिया जाता है जो इस प्रमाणपत्र के जारी किए जाने की तारीख से निम्नलिखित नियन्त्रण और शर्तों के अधीन प्रभावी होगा :—

(i) यह कि कारबार का संचालनकिया जाएगा ;

(ii) यह कि प्रमाणपत्रवर्ष की कालावधि के लिए थाकर्मकारों की भर्ती पूरी हो जाने तक इन दोनों में से जो भी पहले हो, वैध है। विनिर्दिष्ट अवधि के पूर्व विनिर्दिष्ट संख्या में भर्ती पूरी हो जाने की दशा में प्रमाणपत्र धारक को वास्तविक मांग का साक्ष्य पेश किए जाने पर और नियम 8 के उपनियम (2) के अधीन अतिरिक्त प्रतिभूति देने पर प्रमाणपत्र की समाप्ति तक भर्ती चासू रखने के लिए अनुज्ञात किया जा सकता है ;

(iii) यह कि प्रमाणपत्र धारक कारबार का संचालन अपने हस्ताक्षर और निदेशक/भागीदार/स्वत्वधारी की मोहर से करेगा तथा प्रमाणपत्र अंतरणीय नहीं होगा ;